



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931

No. 1817]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

का.आ. 2825(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 268.200 कि.मी. से 317.500 कि.मी. तक के भू-खण्ड (उदयपुर-अहमदाबाद सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-खंड अधिकारी गिरवा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में उदयपुर जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 268.200 कि.मी. से 317/500 कि.मी. (उदयपुर - अहमदाबाद सेक्सन) तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उदयपुर	गिर्वा	बलीचा	911	निजी	कांकरी बीड	0.0050
				912	निजी	भूरी.कांकरी. कांकरी बीड	0.0200
				927	निजी	कांकरी बीड	0.0150
				1872/928	निजी	कांकरी बीड	0.0150
				1873/928	निजी	कांकरी	0.0200
				928	सरकारी	मगरी	0.0200
				929	निजी	कांकरी	0.0300
				934	निजी	मगरी	0.0100
				935	निजी	मगरी	0.0100
				936	निजी	मगरी	0.0050
				949	निजी	कांकरी कदीम	0.0100
				950	सरकारी	पहाड़	0.0250
				951	निजी	कांकरी कदीम	0.0100
				953	निजी	मगरी	0.0400
				947	निजी	कांकरी कदीम	0.0300
				1409	निजी	मगरी	0.1000
				1408	निजी	कांकरी	0.0100
				1411	सरकारी	पहाड़	0.0150
				1414	सरकारी	पहाड़	0.0200
				1415	निजी	कांकरी	0.0100
				1418	निजी	कांकरी	0.0200
				1419	निजी	कांकरी	0.0100
				1422	निजी	कांकरी	0.0100
				1423	निजी	कांकरी	0.0050
				1424	निजी	कांकरी	0.0050
						योग हेक्ट.	0.4700
2	उदयपुर	गिर्वा	काया	1012	सरकारी	नाला	0.0100
				932	निजी	उधोग	0.0130
				1013	सरकारी	नाला	0.0100
				933	सरकारी	मगरी	0.0800
						योग हेक्ट.	0.1130

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	उदयपुर	गिर्वा	सूरपलाया	72	सरकारी	मगरी	0.0150
				73 मी.	सरकारी	मगरी	0.0050
				67	सरकारी	मगरी	0.3200
				71	सरकारी	मगरी	0.0750
				7035/73	निजी	मगरी	0.0050
4	उदयपुर	गिर्वा	बारापाल			योग हेक्ट.	0.4200
				8922	निजी	एक साखी-।	0.0150
				8925	निजी	एक साखी-।	0.0050
				8949	निजी	पेटा-।।	0.0100
				8947	निजी	पेटा-।।	0.1000
				8923	निजी	भटवेड़	0.0100
				9298	सरकारी	आबादी	0.0300
				8933	निजी	मकान	0.0050
				9293	सरकारी	आबादी	0.0310
				9301	निजी	राकड़	0.1000
				9300	निजी	मकान	0.0100
				9319	सरकारी	मगरी-।।	0.2800
				9345	रा.रा.-8	मगरी-।।	0.0150
				9294	सरकारी	आस्था बावड़ी	0.0050
				9346 मी.	निजी	मगरी-।।	0.0350
				9347 मी.	सरकारी	मगरी-।।	0.0350
				9350 मी.	निजी	मगरी-।।	0.0100
				9348	निजी	राकड़	0.0350
				9359	सरकारी	मगरी-।।	0.0800
				9357	निजी	राकड़	0.0400
				9359/1	निजी	मगरी-।।	0.0100
				8943	निजी	पेटा-।।	0.0300
				8941	निजी	पेटा-।।	0.0150
				8940	निजी	आराजी चाही	0.0100
				8939	निजी	एक साखी-।।।	0.0450
				9160	सरकारी	आबादी	0.0850
				9172	निजी	राकड़	0.0200
				9173	निजी	राकड़	0.0650
				9174	निजी	एक साखी-।।।	0.1100
				9171	निजी	कुआ-।।	0.0150

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9175	निजी	राकड़	0.0200
				9177	निजी	भटवेड़	0.0050
				9170	निजी	कुआ-॥	0.0550
				9179 मी.	निजी+ रा.रा.8	एक साखी- ॥	0.0750
				9180	निजी	एक साखी-॥	0.0850
				9181	निजी	कुआ-॥॥	0.0010
				9188	निजी	एक साखी	0.0450
				9185	निजी	कुआ-॥॥	0.0550
				9193 मी.	निजी	कुआ-॥	0.0300
				9194	निजी	कुआ-॥	0.0200
				9195	निजी	कुआ-॥	0.0300
				9196	निजी	कुआ-॥	0.0300
				9197	निजी	कुआ-॥	0.0350
				9198	निजी	कुआ-॥	0.0200
				9199	निजी	कुआ-॥	0.0550
				9200	निजी	कुआ-॥	0.0300
				9202	निजी	राकड़	0.0300
				9203	निजी	कुआ-॥	0.0450
				9204	निजी	कुआ-॥	0.0350
				9208	निजी	कुआ-॥	0.0300
				9207	निजी	कुआ-॥	0.0350
				9209	निजी	कुआ-॥	0.0650
				9210	निजी	कुआ-॥	0.0010
				9212	निजी	कुआ-॥	0.0050
				9213	निजी	कुआ-॥	0.0050
				9214 मी.	निजी	चाही-॥	0.0150
				9215 मी.	निजी	कुआ-॥	0.0050
				9216 मी.	निजी	कुआ-॥	0.0050
				9344	निजी	कुआ-॥	0.0200
				9218 मी.	निजी	कुआ-॥	0.0200
				9219 मी.	निजी	कुआ-॥	0.0200
				9469	निजी	एक साखी	0.0050
				9222	निजी	एक साखी-॥॥	0.0150
				9221	सरकारी	नाला	0.0150
				9464	निजी	एक साखी-॥॥	0.0050
				9461	निजी	एक साखी-॥॥	0.0100

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	उदयपुर	गिरा	टीडी	9456	निजी	एक साखी-III	0.0050
				9409	निजी	राकड़	0.0460
						योग हेक्ट	2.2840
				3332 मी	निजी	कुआ-II	0.0200
				3872	निजी	मगरी-II	0.0100
				3879	निजी	कुआ-II	0.0100
				3891	निजी	एक साखी-III	0.0100
				3901 मी	निजी	कुआ-II	0.0200
				3894 मी	निजी	आबादी	0.0100
				3893 मी	निजी	कुआ-II	0.0150
				3902 मी	निजी	कुआ-II	0.0150
				3911 मी	निजी	पड़त-II	0.0150
				3915 मी	निजी	कुआ-II	0.0200
				3914 मी	निजी	कुआ-II	0.0250
				3964 मी	निजी	कुआ-II	0.0350
				3328 मी	निजी	कुआ-II	0.0100
				3329 मी	सरकारी	नदी	0.0200
				3339 मी	निजी	कुआ-II	0.0150
				2518 मी	निजी	कुआ-I	0.0450
				2522	निजी	कुआ-I	0.0050
				2525 मी	निजी	कुआ-I	0.0250
				2526	निजी	कुआ-I	0.0050
				2530	निजी	कुआ-I	0.0200
				2535	निजी	दीगर पीवल-II	0.0100
				2533	निजी	आहता चाही	0.0100
				3909	निजी	आहता चाही	0.0050
				2520	निजी	मकान	0.0050
				5170/2556	सरकारी	बस स्टैण्ड	0.0100
				2548	निजी	एक साखी-I	0.0250
				2556	निजी	आबादी	0.0300
				2612	निजी	एक साखी-III	0.0100
						योग हेक्ट	0.4550

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-उदयपुर (जी क्यू)/एनएच-8]

प्रभाकर, उप-सचिव

3997 5709-2

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

S.O. 2825(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-8 on the stretch of land from **Km 268.200 to km 317.500** (Udaipur-Ahmedabad Section) in District Udaipur in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Division-Officer., Girwa, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 268.200 to km 317.500 (Udaipur-Ahmedabad Section) of National Highway No. 8 in the state of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare.)
('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)	('8)
1	Udaipur	Girwa	(1) Balicha	911	Private	Kankari Beed	0.0050
				912	Private	Bhuri Kankari Kankari Beed	0.0200
				927	Private	Kankari Beed	0.0150
				1872/928	Private	Kankari Beed	0.0150
				1873/928	Private	Kankari	0.0200
				928	Government	Magri	0.0200
				929	Private	Kankari	0.0300
				934	Private	Magri	0.0100
				935	Private	Magri	0.0100
				936	Private	Magri	0.0050
				949	Private	Kankari Kadeem	0.0100
				950	Government	Pahad	0.0250
				951	Private	Kankari Kadeem	0.0100
				953	Private	Magri	0.0400
				947	Private	Kankari Kadeem	0.0300
				1409	Private	Magri	0.1000
				1408	Private	Kankari	0.0100
				1411	Government	Pahad	0.0150
				1414	Government	Pahad	0.0200
				1415	Private	Kankari	0.0100
				1418	Private	Kankari	0.0200
				1419	Private	Kankari	0.0100
				1422	Private	Kankari	0.0100
				1423	Private	Kankari	0.0050
				1424	Private	Kankari	0.0050
						Total in (Hec.)	0.4700
			(2) Sethji ki Kundal	1012	Government	Nala	0.0100
				932	Private	Udhyog	0.0130
				1013	Government	Nala	0.0100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				933	Government	Magri	0.0800
						Total (in Hec.)	0.1130
		(3) Kaya		72	Government	Magri	0.0150
				73 M	Government	Magri	0.0050
				67	Government	Magri	0.3200
				71	Government	Magri	0.0750
				7035/73	Private	Magri	0.0050
						Total in Hec.	0.4200
		(4) Barapal		8922	Private	Ek Sakhi-I	0.0150
				8925	Private	Ek Sakhi-I	0.0050
				8949	Private	Peta-II	0.0100
				8947	Private	Peta-II	0.1000
				8923	Private	Bhatvad	0.0100
				9298	Government	Aabadi	0.0300
				8933	Private	Makan	0.0050
				9293	Government	Aabadi	0.0310
				9301	Private	Rankad	0.1000
				9300	Private	Makan	0.0100
				9319	Government	Magri-II	0.2800
				9294	Government	Ahata- Bawadi	0.0050
				9345	Private	Magri-II	0.0150
				9346M	Private	Magri-II	0.0350
				9347 M	Government	Magri-II	0.0350
				9348	Private	Rankad	0.0350
				9350 M	Private	Magri-II	0.0100
				9357	Private	Rankad	0.0400
				9359	Government	Magri-II	0.0800
				9359/1	Private	Magri-II	0.0100
				8943	Private	Peta-II	0.0300
				8941	Private	Peta-II	0.0150
				8940	Private	Ahata Chahi	0.0100
				8939	Private	Ek Sakhi-III	0.0450
				9160	Government	Aabadi	0.0850

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9172	Private	Rankad	0.0200
				9173	Private	Rankad	0.0650
				9174	Private	Ek Sakhi-III	0.1100
				9171	Private	KU-II	0.0150
				9175	Private	Rankad	0.0200
				9177	Private	Bhatwad	0.0050
				9170	Private	Kua-II	0.0550
				9179 M	Private+NH-8	Ek Sakhi-III	0.0750
				9180	Private	Ek Sakhi-I	0.0850
				9181	Private	Kua-III	0.0010
				9188	Private	Ek Sakhi	0.0450
				9185	Private	Kua-III	0.0550
				9193 M	Private	Kua-II	0.0300
				9194	Private	Kua-II	0.0200
				9195	Private	Kua-II	0.0300
				9196	Private	Kua-II	0.0300
				9197	Private	Kua-II	0.0350
				9198	Private	Kua-II	0.0200
				9199	Private	Kua-II	0.0550
				9200	Private	Kua-II	0.0300
				9202	Private	Rankad	0.0300
				9203	Private	Kua-II	0.0450
				9204	Private	Kua-II	0.0350
				9208	Private	Kua-II	0.0300
				9207	Private	Kua-II	0.0350
				9209	Private	Kua-II	0.0650
				9210	Private	Kua-II	0.0010
				9212	Private	Kua-II	0.0050
				9213	Private	Kua-II	0.0050
				9214 M	Private	Chahi-II	0.0150
				9215 M	Private	Kua-II	0.0050
				9216 M	Private	Kua-II	0.0050
				9344	Private	Kua-II	0.0200
				9218 M	Private	Kua-II	0.0200
				9219 M	Private	Kua-II	0.0200
				9469	Private	Ek Sakhi	0.0050
				9222	Private	Ek Sakhi-III	0.0150
				9221	Government	Nala	0.0150
				9464	Private	Ek Sakhi-III	0.0050
				9461	Private	Ek Sakhi-III	0.0100
				9456	Private	Ek Sakhi-III	0.0050
				9409	Private	Rankad	0.0460
						Total in (hec.)	2.2840

3977 ९५/०९-३

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(5) Tidi				3332 M	Private	Kua-II	0.0200
				3872	Private	Magri-II	0.0100
				3879	Private	Kua-II	0.0100
				3891	Private	Ek Sakhi-III	0.0100
				3901M	Private	Kua-II	0.0200
				3894 M	Private	Aabadi	0.0100
				3893 M	Private	Kua-II	0.0150
				3902 M	Private	Kua-II	0.0150
				3911 M	Private	Padat-II	0.0150
				3915 M	Private	Kua-II	0.0200
				3914 M	Private	Kua-II	0.0250
				3964 M	Private	Kua-II	0.0350
				3328 M	Private	Kua-II	0.0100
				3329 M	Government	Nadi	0.0200
				3339 M	Private	Kua-II	0.0150
				2518 M	Private	Kua-I	0.0450
				2522	Private	Kua-I	0.0050
				2525 M	Private	Kua-I	0.0250
				2526	Private	Kua-II	0.0050
				2530	Private	Kua-I	0.0200
				2535	Private	Deegar Peeval-II	0.0100
				2533	Private	Ahata Chahi	0.0100
				3909	Private	Ahata Chahi	0.0050
				2520	Private	Makan	0.0050
				5170/2556	Government	Bus Stand	0.0100
				2548	Private	Ek Sakhi-I	0.0250
				2556	Private	Aabadi	0.0300
				2612	Private	Ek Sakhi-III	0.0100
						Total in (Hec.)	0.4550

[F. No. NHA/PIU-Udaipur (GQ)/NH-8]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

का.आ. 2826(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 324.000 कि.मी. से 355.200 कि.मी. तक के भू-खण्ड (उदयपुर-अहमदाबाद सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-खंड अधिकारी खैरवाड़ा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में उदयपुर जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 324/000 कि.मी. से 355/200 कि.मी. (उदयपुर - अहमदाबाद सेक्सन) तक के लिये अर्जन की जाने की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	उदयपुर	ऋशभदेव	थाना धुलेव	812	निजी	आबादी	0.0200
				921	निजी	राकड़	0.0400
				822	निजी	उधोग	0.0450
				820	सरकारी	गैर कृषि	0.0050
				928	देवस्थान विभाग	मगरी- II	0.0330
				821	निजी	उधोग	0.0250
				929	देवस्थान विभाग	मगरी	0.0040
				827	निजी	उधोग	0.0200
				826	निजी	बारानी	0.0080
				825	निजी	मगरी	0.0050
				836	निजी	नेड़ी बारानी- III	0.0050
				837	निजी	मगरी	0.0150
				838	निजी	उधोग	0.0080
				840	निजी	राकड़ उधोग	0.0270
				842	निजी	उधोग	0.0050
						योग हेक्ट	0.265
			धुलेव	1061	सरकारी	मगरी	0.0180
				1062	सरकारी	मगरी	0.0150
				1065	निजी	राकड़ उधोग आबादी	0.0540
				1066	निजी	राकड़	0.0170
				1067	निजी	मगरी	0.0110
				1069	निजी	राकड़- I	0.0100
				1070	निजी	मगरी	0.0070
				1072	निजी	राकड़- I	0.0260
				1077	सरकारी	मगरी	0.0050
				1076	सरकारी	मगरी	0.0030
				1078	निजी	उधोग	0.0170
				1079	निजी	बारानी	0.0020
				1080	निजी	बारानी	0.0100

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उदयपुर	खेरवाड़ा	बंजारिया	370	निजी	मगरी राकड़	0.0040	
					योग हेक्ट	0.5420	
			966	निजी	राकड़-। मकान	0.0180	
			964	निजी	बारानी-।।।	0.0160	
			962	निजी	भटवेड़	0.0050	
			961	निजी	बारानी-।।।	0.0130	
			834	निजी	बारानी-।।।	0.0230	
			828	सरकारी	रास्ता	0.0070	
			832	सरकारी	रास्ता-	0.0050	
			831	निजी	राकड़-। आबादी	0.0090	
			420	निजी	राकड़-। आबादी	0.0190	
			423	निजी	बारानी-।।। आबादी	0.0370	
			424	निजी	बारानी-। आबादी	0.0180	
			427	निजी	खादी-।।	0.0140	
			428	निजी	मगरी-।।	0.0010	
			429	निजी	खादी-।।	0.0110	
			434	निजी	मगरी-।।	0.0300	
			436	निजी	मकान	0.0300	
			433	निजी	राकड़-।	0.0050	
			452	निजी	आबादी	0.0600	
			453	निजी	आबादी	0.0100	
			456	निजी	पाल बन्दा	0.0140	
			466	निजी	आबादी	0.0080	
			467	निजी	आबादी	0.0590	
			481	निजी	राकड़-।। बारानी-।	0.0220	
			472	सरकारी	मगरी-।।	0.0100	
			475	सरकारी	आबादी	0.0010	
			577	निजी	राकड़-।	0.0360	
			578	निजी	खादी-।	0.0030	
			580	निजी	राकड़-।	0.0210	
			582	निजी	राकड़-।	0.0120	
			583	निजी	मगरी-। बीड़	0.0100	
			584	निजी	मगरी-।।	0.0110	
			587	निजी	आबादी -।। खादी-।।	0.0110	
			593	निजी	बारानी-।	0.0280	

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			धुलेव	1081	निजी	बाराणी	0.0030
				1086	निजी	बाराणी- II	0.0060
				1087	निजी	बाराणी- II	0.0180
				1088	निजी	बाराणी- II	0.0180
				1162	सरकारी	रास्ता	0.0050
				1163	निजी	मगरी- II	0.0300
				1167	निजी	बाराणी	0.0050
				1168	निजी	बाराणी	0.0400
				1172	निजी	बाराणी	0.0130
				1170	निजी	बाराणी	0.0030
				1177	सरकारी	गैर कृषि	0.0030
				43 / 1167	निजी	राकड़	0.0050
				1179	सरकारी	गैर कृषि	0.0060
						योग हेक्ट	0.3140
				1007	निजी	मगरी- II	0.0100
				1008	निजी	राकड़ लघु उधोग	0.0400
				1010	निजी	लघु उधोग	0.0150
				1012	सरकारी	मगरी- II	0.0250
				1022	सरकारी	मगरी	0.0100
				1023	सरकारी	मगरी	0.0600
				1024	निजी	बाराणी- III	0.0100
				1025	निजी	राकड़- II	0.0250
				1050	सरकारी	मगरी- II	0.0100
				1052	निजी	आबादी नेड़ी राकड़	0.0450
				1055	निजी	राकड़- I	0.0450
				1056	निजी	दुडा	0.0050
				1058	सरकारी	मगरी- II	0.0250
				1059	सरकारी	मगरी- II	0.0150
				948	सरकारी	सड़क	0.0100
				356	निजी	उधोग	0.0010
				357	निजी	उधोग	0.0240
				358	निजी	उधोग	0.0300
				361	निजी	उधोग	0.0150
				362	निजी	मगरी- II बाराणी	0.0600
				364	निजी	पड़त	0.0100
				366	निजी	मगरी राकड़	0.0150
				367	निजी	मगरी बाराणी राकड़	0.0330

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				594	निजी	बारानी-III	0.0020
				595	निजी	राकड़-।	0.0020
				598	निजी	आबादी	0.0920
				650	निजी	आबादी	0.0100
				651	निजी	आबादी	0.0140
				1274	निजी	राकड़-।	0.0120
				1275	सरकारी	रास्ता	0.0080
				1276	निजी	मकान	0.0100
				1278	निजी	बारानी-III	0.0690
				1280	निजी	बारानी-III	0.0290
				1283	निजी	बारानी-III	0.0010
				826	निजी	बारानी-III	0.0450
				825	निजी	बारानी-III	0.0480
				824	निजी	पड़त-।।	0.0150
				822	निजी	मगरी-।।	0.0500
				823	निजी	मगरी-।।	0.0250
				802	निजी	आबादी	0.0400
				806	निजी	आबादी मगरी-।। मकान, लघु उद्योग	0.0340
				801	निजी	खादी-।	0.0100
				800	निजी	वणिज्यिक प्रयोजनार्थ	0.0470
				799	निजी	पड़त-।	0.0090
				798	निजी	पड़त-।	0.0110
				790	निजी	आबादी	0.0410
				789	निजी	मगरी-।।	0.0230
				787	सरकारी	रास्ता	0.0100
				784	निजी	मगरी-।।	0.0350
				781	निजी	आबादी बारानी-III	0.0430
				752	निजी	मकान	0.0220
				753	निजी	नेड़ी राकड़-।	0.0050
				749	निजी	राकड़-।	0.0480
				747	निजी	खादी-।।	0.0040
				732	निजी	खादी-।। आबादी	0.0410
				733	निजी	खादी-।	0.0020
				731	निजी	पड़त-।।	0.0200
				730	निजी	नेड़ी मकान राकड़-।	0.0490

क्रम सं	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2839/709	निजी	मकान	0.0010
				709	निजी	राकड़—II	0.0050
				710	निजी	राकड़—II	0.0140
				708	निजी	वाणिज्यिक बाराणी—I	0.0380
				698	निजी	आबादी	0.0020
				705	निजी	आबादी	0.0090
				704	निजी	आबादी	0.0120
				702	निजी	मगरी—II	0.0190
				703	निजी	आबादी	0.0190
				699	निजी	राकड़—II	0.0260
				696	निजी	बाराणी—I आबादी	0.0050
						योग हेक्ट	1.6530

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-उदयपुर (जी क्यू)/एनएच-8]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

S.O. 2826(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening, six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-8 on the stretch of land from Km 324.000 to km 355.200 (Udaipur -Ahmedabad Section) in District Udaipur in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Division Officer, Kherwara, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent

authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 324.200 to km 355.200 (Udaipur - Ahmedabad Section) of National Highway No. 8 in the state of Rajasthan.

Serial number	Name Of the district	Name of taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare.)
('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)	('8)
(1)	Udaipur	(1) Rishabhde	(1) Thana Dhulev	812	Private	Abadi	0.0200
				921	Private	Rakhad	0.0400
				822	Private	Udhyog	0.0450
				820	Government	Non-Agriculture	0.0050
				928	Davsthan	Magri-II	0.0330
				821	Private	Udhyog	0.0250
				929	Davsthan	Magri	0.0040
				827	Private	Udhyog	0.0200
				826	Private	Barani	0.0080
				825	Private	Magri	0.0050
				836	Private	Nadi /Barani-III	0.0050
				837	Private	Magri	0.0150
				838	Private	Udhyog	0.0080
				840	Private	Udhyog-Rakhad	0.0270
				842	Private	Udyog	0.0050
						Total in Hec.	0.265
			(2) Dhule	1061	Government	Magri	0.0180
				1062	Government	Magri	0.0150
				1065	Private	Rakhad, Udhyog Abadi	0.0540
				1066	Private	Rakhad	0.0170
				1067	Private	Magri	0.0110
				1069	Private	Rakhad-I	0.0100
				1070	Private	Magri	0.0070
				1072	Private	Rakhad-I	0.0260
				1077	Government	Magri	0.0050
				1076	Government	Magri	0.0030
				1078	Private	Udhyog	0.0170
				1079	Private	Barani	0.0020
				1080	Private	Barani	0.0100
				1081	Private	Barani	0.0030
				1086	Private	Barani-II	0.0060
				1087	Private	Barani-II	0.0180
				1088	Private	Barani-II	0.0180
				1162	Government	Rasta	0.0050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1163	Private	Magri-II	0.0300
				1167	Private	Barani	0.0050
				1168	Private	Barani	0.0040
				1172	Private	Barani	0.0130
				1170	Private	Barani	0.0030
				1177	Government	Non-Agriculture	0.0030
				43/1167	Private	Rakhad	0.0050
				1179	Government	Non-Agriculture	0.0060
						Total in Hec.	0.3140
				1007	Private	Magri-II	0.0100
				1008	Private	Rakhad, Lagu Udhyog	0.0400
				1010	Private	Lagu Udhyog	0.0150
				1012	Government	Magri-II	0.0250
				1022	Government	Magri	0.0100
				1023	Government	Magri	0.0600
				1024	Private	Barani-III	0.0100
				1025	Private	Rakad-II	0.0250
				1050	Government	Magri-II	0.0100
				1052	Private	Abadi, Nadi, Rakad	0.0450
				1055	Private	Rakad-I	0.0450
				1056	Private	Dhundha	0.0050
				1058	Government	Magri-II	0.0250
				1059	Government	Magri-II	0.0150
				948	Government	Sadak	0.0100
				356	Private	Udhyog	0.0010
				357	Private	Udhyog	0.0240
				358	Private	Udhyog	0.0300
				361	Private	Udhyog	0.0150
				362	Private	Magri-II Barani	0.0600
				364	Private	Padat	0.0100
				366	Private	Magri-Rakad	0.0150
				367	Private	Magri Barani Rakad	0.0330
				370	Private	Rakad Magri	0.0040
						Total In hec.	0.5420
				966	Private	Rakad-I Makan	0.0180
				964	Private	Barani-III	0.0160

(2) Kherwara Banjariya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				962	Private	Bhatwed	0.0050
				961	Private	Barani-III	0.0130
				834	Private	Barani-III	0.0230
				828	Government	Rasta	0.0070
				832	Government	Rasta	0.0050
				831	Private	Rankad-II Abadi	0.0090
				420	Private	Rankad-I Abadi	0.0190
				423	Private	Barani-III Abadi	0.0370
				424	Private	Barani-I Abadi	0.0180
				427	Private	Khadi-II	0.0140
				428	Private	Magri-II	0.0010
				429	Private	Khadi-II	0.0110
				434	Private	Magri-II	0.0300
				436	Private	Makan	0.0300
				433	Private	Rankad-I	0.0050
				452	Private	Abadi	0.0600
				453	Private	Abadi	0.0100
				456	Private	Pal Banda	0.0140
				466	Private	Abadi	0.0080
				467	Private	Abadi	0.0590
				481	Private	Rankad-II Barani-I	0.0220
				472	Government	Magri-II	0.0100
				475	Government	Abadi	0.0010
				577	Private	Rankad-I	0.0360
				578	Private	Khadi-I	0.0030
				580	Private	Rankad-I	0.0210
				582	Private	Rankad-I	0.0120
				583	Private	Magri-I Beed	0.0100
				584	Private	Magri-II	0.0110
				587	Private	Abadi- Khadi-II	0.0110
				593	Private	Barani-I	0.0280
				594	Private	Barani-III	0.0020
				595	Private	Rankad-I	0.0020
				598	Private	Abadi	0.0920
				650	Private	Abadi	0.0100
				651	Private	Abadi	0.0140
				1274	Private	Rankad-I	0.0120
				1275	Government	Rasta	0.0080
				1276	Private	Makan	0.0100
				1278	Private	Barani-III	0.0690
				1280	Private	Barani-III	0.0290
				1283	Private	Barani-III	0.0010
				826	Private	Barani-III	0.0450
				825	Private	Barani-III	0.0480

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				824	Private	Padat-II	0.0150
				822	Private	Magri-II	0.0500
				823	Private	Magri-II	0.0250
				802	Private	Abadi	0.0400
				806	Private	Abadi-Magri-II, Makan, Udhyog,	0.0340
				801	Private	Khadi-I	0.0100
				800	Private	Commercial	0.0470
				799	Private	Padat-I	0.0090
				798	Private	Padat-I	0.0110
				790	Private	Abadi	0.0410
				789	Private	Magri-II	0.0230
				787	Government	Rasta	0.0100
				784	Private	Magri-II	0.0350
				781	Private	Abadi-Barani-III	0.0430
				752	Private	Makan	0.0220
				753	Private	Nadi-Rankad-I	0.0050
				749	Private	Rankad-I	0.0480
				747	Private	Khadi-II	0.0040
				732	Private	Khadi-II Abadi	0.0410
				733	Private	Khadi-I	0.0020
				731	Private	Padat-II	0.0200
				730	Private	Rankad-I Nadi makan	0.0490
				2839/709	Private	Makan	0.0010
				709	Private	Rankad-II	0.0050
				710	Private	Rankad-II	0.0140
				708	Private	Commercial , Barani-I	0.0380
				698	Private	Abadi	0.0020
				705	Private	Abadi	0.0090
				704	Private	Abadi	0.0120
				702	Private	Magri-II	0.0190
				703	Private	Abadi	0.0190
				699	Private	Rankad-II	0.0260
				696	Private	Barani-I, Abadi	0.0050
						Total in Hec.	1.6530

[F. No. NHA/PIU-Udaipur (GQ)/NH-8]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

का.आ. 2827(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाकितियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 355/200 कि.मी. से 388/200 कि.मी. तक के भूखण्ड (उदयपुर — अहमदाबाद सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/ 6 लेन का बनाने आदि) अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आदेश की घोशणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उक्त हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में डूंगरपुर जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 355.200 कि.मी. से 388.200 कि.मी. (उदयपुर — अहमदाबाद सेक्सन) तक के लिये अर्जन की जाने की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं	जिला का नाम	तलुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	डूंगरपुर	डूंगरपुर	बरोठी	110/2	निजी	आहाता चाही कुआ	0.0250
				285	सरकारी	मगरी	0.0300
				284	निजी	सुखी-।	0.0050
				2226/769	निजी	बाड़ा	0.0050
				768	निजी	पड़त	0.0600
				269	निजी	सुखी-।	0.1200
				2268/1768	निजी	सुखी-।।।	0.0050
				2269/2157	निजी	सुखी-।।।	0.0050
				286	सरकारी	स्कूल मगरी	0.0050
				292	निजी	सुखी-।।	0.0800
				350	सरकारी	रास्ता	0.0050
				347	निजी	सुखी-।।	0.0550
				352	निजी	सुखी-।।	0.0850
				354	सरकारी	रास्ता	0.0050
				359	निजी	सुखी-।।	0.0350
				769	सरकारी	मगरी	0.0300
				951	निजी	सुखी-।।	0.0100
				953	निजी	सुखी-।।	0.0081
				957	निजी	मकान	0.0300
				958	निजी	खलियान	0.0750
				960	निजी	सुखी-।	0.0150
				961	निजी	सुखी-।।	0.0350
				962	निजी	सुखी-।।।	0.0400
				963	निजी	पड़त	0.0100
				966	निजी	सुखी-।।।	0.0150
				287 मी.	निजी	बीड़	0.0150
				955	निजी	सुखी-।	0.0050
						योग हेक्टेयर	0.8131

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-उदयपुर (जी क्यू)/एनएच-8]

प्रभाकर, उप-सचिव

3977 6709-6

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

S.O. 2827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-8 on the stretch of land from **Km 355.200 to km 388.200** (Udaipur -Ahmedabad Section) in District Dungarpur in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Dungarpur, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land Km 355.200 to km 388.200 (Udaipur - Ahmedabad Section) of the NH- 8 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare.)
('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)	('8)
1	Dungarpur	Dungarpur	Barauthi	110/2	Private	Ahata Chahi (Kua)	0.0250
				285	Government	Magri	0.0300
				284	Private	Sukhi-II	0.0050
				2226/ 769	Private	Bada	0.0050
				768	Private	Padat	0.0600
				269	Private	Sukhi-I	0.1200
				2268/ 1768	Private	Sukhi-III	0.0050
				2269/ 2157	Private	Sukhi-III	0.0050
				286	Government	School/Magri	0.0050
				292	Private	Sukhi-I	0.0800
				350	Government	Rasta	0.0050
				347	Private	Sukhi-II	0.0550
				352	Private	Sukhi-II	0.0850
				354	Government	Rasta	0.0050
				359	Private	Sukhi-II	0.0350
				769	Government	Magri	0.0300
				951	Private	Sukhi-II	0.0100
				953	Private	Sukhi-II	0.0081
				957	Private	Makan	0.0300
				958	Private	Khalian	0.0750
				960	Private	Sukhi-I	0.0150
				961	Private	Sukhi-II	0.0350
				962	Private	Sukhi-III	0.0400
				963	Private	Padat	0.0100
				966	Private	Sukhi-III	0.0150
				287 M	Private	Beed	0.0150
				955	Private	Sukhi-I	0.0050
						Total in Hec.	0.8131

[F. No. NHAI/PIU-Udaipur (GQ)/NH-8]

PRABHAKAR, Dy. Secy.